

August 5, 2022

BSE Limited Floor 25, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code: 530019

Symbol: JUBLPHARMA

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Unaudited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated August 2, 2022, we enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2022 published on August 3, 2022 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Pharmova Limited

Naresh Kapoor Company Secretary

A Jubilant Bhartia Company



Jubilant Pharmova Limited 1-A, Sector 16-A, Noida-201 301, UP, India Tel: +91 120 4361000 Fax: +91 120 4234895-96 www.jubilantpharmova.com Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223 UP, India CIN : L24116UP1978PLC004624



Jammu & Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation Ltd. (A Government of Jammu and Kashmir Undertaking) Regd.Office: Office of DG Accounts and Treasuries, Government of J&K, Muthi, TalabTiloo, Jammu 180001 J&K Branch: Finance Department, Government of J&K, Civil Secretariat, Srinaga (May-Oct)/Jammu (Nov-Apr) J&K Phone: +91 194 2506081+91 191 2544137 | <u>http://www.jkidfc.in</u> **EXPRESSION OF INTEREST** NIT No. 09-JKIDFC of 2022 Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation (JKIDFC) Ltd. is a Registered Corporation under the Companies Act, 2013. The Corporation is mandated to raise loan upto Rs. 8,000.00 crore for funding Infrastructure Development in Jammu and Kashmir. The loans to be raised by the Corporation are guaranteed by the following

Revision of taxes under the Jammu and Kashmir (Motor Spirit and Diesel Oil) (Taxation of Sales) Act by revising rate of tax on sale of diesel from 16% minus Rs. 2.5 per litre to 16% minus Rs. 0.5 per litre.

dedicated Revenue Streams:

- Increase in one time road tax at 9% for motor lii. vehicles.
- iii. Increasing efficiency of collection of water connection charges by way of covering all the unregistered consumers and improving collection efficiency to 100%.
- iv. Increasing revenue realization by making full use of permissible limit of 80 lakh cft of extraction of timber."
- 2. The repayment of the principle and interest shall be made directly through the designated account from the revenues accrued from the above dedicated streams. The duration of loan would be of 15 years.
- Sealed Expression of Interest (EOI) is being З. invited from reputed RBI regulated Banking and Financial Institutions/Companies of the country, to submit written proposals for advancing loans of Rs. 1000 crore to be availed during remaining months of the current financial year 2022-23. The bidders have to quote the rate of interest (MCLR linked) at which they will offer the loan along with the amount they are prepared to invest during 2022-23. Any change in the interest rate during subsequent years will be MCLR linked.
- 4. Expression of Interest (EOI) must be delivered both in written hard copy and as well as digital form and should include the banking/ financial company's demonstrated capacity to provide the credit facility. The hard copy of EOI shall be delivered through registered post/ speed post/ courier/ by hand latest by August 24th 2022 (Wednesday) up to 1700 hrs IST on the below mentioned address. The same shall be opened on next working day i.e. August 25th 2022 (Thursday) at 1700 hrs IST.

Director Finance,

Jammu & Kashmir Infrastructure Development **Finance Corporation - JKIDFC**, Room No. 421, 4th Floor, New Civil Secretariat, Srinagar -190001, Phone: 0194-2506201. Mobile No.: 9419205227,

6MAX | FINANCIAL SERVICES

Max Financial Services Limited CIN: L24223PB1988PLC008031 Corporate Office: Max House, Okhla, New Delhi-110020 Registered Office: Bhai Mohan Singh Nagar, Railmajra, Tehsil Balachaur, District Nawanshahr, Punjab-144533, Website: www.maxfinancialsonite

					per share data)
	Standalone			Consolidated	
3 months ended 30.06.2022	3 months ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2022	3 months ended 30.06.2022	3 months ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2022
(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
12.80	158.25	202.06	3,275.89	5,943.14	31,187.58
2.83	137.94	147.08	80.39	84.37	388.65
2.83	137.94	147.08	80.39	84.37	388.65
1.76	97.52	102.62	68.48	35.81	318.40
1.75	97.53	102.98	54.53	30.59	306.49
69.02	69.02	69.02	69.02	69.02	69.02
-	-	6,680.57	-	-	3,865.59
0.05	2.83	2.97	1.63	0.61	7.34
0.05	2.83	2.97	1.63	0.61	7.34
	ended 30.06.2022 (Unaudited) 12.80 2.83 2.83 1.76 1.75 69.02 - 0.05	3 months ended 30.06.2022 3 months ended 30.06.2021 (Unaudited) (Unaudited) 12.80 158.25 2.83 137.94 2.83 137.94 1.76 97.52 1.75 97.53 69.02 - - - 0.05 2.83	3 months ended 30.06.2022 3 months ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 12.80 158.25 202.06 2.83 137.94 147.08 2.83 137.94 147.08 1.76 97.52 102.62 1.75 97.53 102.98 69.02 69.02 69.02 - - 6,680.57 0.05 2.83 2.97	3 months ended 30.06.2022 3 months ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2022 3 months ended 30.06.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 12.80 158.25 202.06 3,275.89 2.83 137.94 147.08 80.39 2.83 137.94 147.08 80.39 1.76 97.52 102.62 68.48 1.75 97.53 102.98 54.53 69.02 69.02 69.02 69.02 - - 6,680.57 - 0.05 2.83 2.97 1.63	3 months ended 30.06.2022 3 months ended 30.06.2021 Year ended 31.03.2022 3 months ended 30.06.2022 3 months ended 30.06.2021 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) 12.80 2.83 158.25 137.94 202.06 147.08 3.275.89 80.39 5.943.14 84.37 2.83 137.94 147.08 80.39 84.37 1.76 97.52 102.62 68.48 35.81 1.75 97.53 102.98 54.53 30.59 69.02 <

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the guarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange website.www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website

		By Order of the Board
Date: August 1, 2022 Place: Goa		Mohit Talwar Managing Director DIN : 02394694
	INSORANCE	Dirt : 02004004



Jubilant Pharmova Limited

Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubilantpharmova.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267437

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2022

Consolidated Unaudited	T mancial Resu	11.5		(₹ in Lakhs)	
	Quarter Ended			Year Ended	
Particulars	30 June	31 March	30 June	31 March	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
	2022	2022	2021	2022	
Total income from operations	145172	152753	163465	613016	
Net profit before tax and exceptional items	6906	10567	24651	63045	
Net profit before tax (after exceptional items)	6906	10567	24651	63045	
Net profit after tax and exceptional items	4675	5909	16049	41302	
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	16260	13166	31561	65698	
Equity share capital	1592	1592	1592	1592	
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				530264	
Earnings per share of ₹ 1 each-Not annualized					
Basic (₹)	2.96	3.74	10.09	26.00	
Diluted (₹)	2.96	3.74	10.09	26.00	
Standalone Unaudited Financial Results (₹ in Lakhs)					
Quarter Ended Year Ended				Year Ended	
Destinutere	30 June	31 March*	30 June*	31 March*	
Particulars	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	

Email: caofinance-jk@nic.in

- 5. The instructions for bidders and tender documents are available on the official website of JKIDFC @ www.sims-jk.gov.jn/jkidfc. Queries, if any, can also be clarified through our official mail support idfc@jk.gov.in.
- 6. The terms and conditions governing EOI shall be as under:
 - 1. Interest and Principle would be paid for respective period to the selected Banks/ Institutions as per the agreement executed and in line with the RBI guidelines.
 - The funds have to be disbursed in installments 2. or in full, as per requirement and agreed terms & conditions and after execution of necessary documents with the Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation (JKIDFC) Ltd.
 - 3. The Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation (JKIDFC) Ltd. reserves the right to make repayment of the loan at an early date at its discretion which would not attract any penal interest/ charges, etc.
 - Selection criteria for the bid shall be the 4. lowest rate of interest and other charges, if any.
 - There shall be no commitment charges. 5.
 - Successful bidder will have to disburse the 6. required amount within 15 days from the date of the demand, from time to time, as per requirement of the Corporation at very short notices.
 - 7. If a bidder, whose offer has been accepted, fails to disburse the required amount within 15 days from the demand, the requisite time frame, loss incurred, if any to JKIDFC, shall be borne by the Financial Institution concerned and shall be recovered by way of adjustment from the dues towards loan servicing.
 - The Hon'ble High court at Jammu and 8. Kashmir shall have exclusive jurisdiction to adjudicate the disputes arising out of the agreement, if any.
 - The bidder can quote rate for more than Rs. 9. 1000 crore on the same rates and terms & conditions.
 - 10. The Jammu and Kashmir Infrastructure **Development Finance Corporation (JKIDFC)** Ltd. reserves the right to terminate a bid without assigning any reason thereof.

No. FD-vii-Gen (203) JKIDFC/2018/283 (Showkat Hussain Mir) Dated: 02.08.2022 Director Finance, JKIDFC Ltd. DIPK-NB-2927-22

	2022	2022	2021	2022
Total income from operations	20457	24069	17864	72573
Net (loss)/profit before tax and exceptional items	(649)	1533	(99)	8472
Net (loss)/profit before tax (after exceptional items)	(649)	1533	(99)	8472
Net (loss)/profit after tax and exceptional items	(518)	1046	(76)	8049
Total comprehensive (loss)/income after tax (comprising (loss)/profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	(499)	1118	(82)	8107
Equity share capital	1593	1593	1593	1593
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				242314
Earnings per share of ₹ 1 each-Not annualized				
Basic (₹)	(0.33)	0.66	(0.05)	5.05
Diluted (₹)	(0.33)	0.66	(0.05)	5.05

*refer note 1

Notes:

1. During the quarter ended 30 June 2022, the Scheme of Arrangement ("the Scheme") for demerger of the Active Pharmaceuticals Ingredients ("API") business undertaking of Jubilant Generics Limited ("JGL"), an indirect wholly owned subsidiary of the Company, and vesting of the same with the Company, on a going concern basis, with Appointed Date of 1 April 2022 was approved by Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ("NCLT") vide its order dated 13 June 2022. The said NCLT order was filed with the Registrar of Companies by the Company and JGL on 1 July 2022 thereby making the Scheme effective from that date. As a result, all assets and liabilities of the API business undertaking vested into the Company were recorded at the respective book values appearing in the books of account of JGL as at 1 April 2022 and the difference amounting to ₹ 115725 lakhs (total assets of ₹ 139478 less total liabilities of ₹ 23753) after considering the cancellation of inter-company balances has been accounted within "Other Equity".

Further, the financial results for the quarters ended 31 March 2022 and 30 June 2021 and for the year ended 31 March 2022 have been restated to include the financial information in respect of prior periods as if the demerger of API business undertaking of JGL and vesting of the same with the Company had occurred from the beginning of the preceding period in the financial results, irrespective of the Appointed Date of the demerger, in accordance with the requirements of Ind AS 103 "Business Combinations".

- 2. The consolidated and the standalone unaudited financial results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 02 August 2022.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022 is available under Investors section of our website at www.jubilantpharmova.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Pharmova Limited

Place : Noida Date : 02 August 2022

Hari S. Bhartia Co-Chairman & Managing Director

As nutritious as soup. And just as easy to digest.

Easynomics

- A Weekly newsletter by Vivek Kaul
- Covers big economic issues
- Focuses on impact on daily lives
- Complimentary for limited time



To subscribe, scan this code or login mint.com/newsletters

Download the Mint app now. Sough Play

.अपना बिजनेस

बदलावः ई-इनवॉयस के जुलाई में कुल 6.28 अरब सौदे हुए,7.16 फीसदी इजाफा यूपीआई से होने वाला लिए सीमा 10 करोड़ हुई नई दिल्ली, एजेंसी। जल्द ही 10 लेन-देन नए शिखर पर सभी वर्गों के लिए हो करोड़ रुपये या इससे अधिक के सालाना टर्नओवर वाले जीएसटी

पंजीकृत कारोबारियों के लिए सौदों के

लिए ई-इनवॉयस बनाना अनिवार्य हो

जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में

सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को

यह सीमा 20 करोड़ रुपये है।

उपलब्धि

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेनदेन की संख्या जुलाई में 6.28 अरब के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनसीपीआई की रिपोर्ट को टैग करते हए ट्विटर पर लिखा कि यूपीआई के जरिये जुलाई में रिकॉर्ड छह अरब लेन-देन हुए और यह 2016 से अबतक सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए इसे उत्कृष्ट उपलब्धि करार दिया। वर्ष 2016 में युपीआई की शुरुआत के बाद इस साल जुलाई

अब तक सरकार को

कितना पैसा मिला

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक

करोड़, 2015 में हुए 2जी और

लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई।

66 यह नई तकनीक को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार थेँ।

में लेन-देन का आंकडा अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

-

एनसीपीआई के मुताबिक इस साल जुलाई में यूपीआई लेन-देन की संख्या में 7.16 फीसदी का इजाफा हुआ है। वहीं यूपीआई से किए गए लेन-देन की कुल राशि भी 4.76 फीसदी बढ़कर 10.62 खरब रुपये पर पहुंच गई।

डिजिटल बैंक का आधार होगा यपीआई : नीति आयोग ने कहा है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों की सुविधा देने के लिहाज से आवश्यक प्रौद्योगिकी है और इसे बढ़ावा देने के लिए नियामक

विश्लेषण

5 जी स्पेक्ट्रम से उपभोक्ताओं को मिलेगा सस्ता डेटा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देश ने

डिजिटल क्रांति में सबसे आगे होने के कई मौके छोड़ दिए

हैं लेकिन हमें 5जी तकनीक से होने वाला बदलावों की

बस नहीं छोड़नी चाहिए। एक अगस्त को पूरी हुई 5जी

इससे दूरसंचार क्षेत्र में नई स्पर्धा का सूत्रपात होगा।

स्पेक्ट्रम नीलामी पर उद्योग जगत ने उम्मीद जताई है कि

भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। कोविड– १९ महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान – **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

रूपरेखा बनाने की जरूरत होगी। आयोग ने कहा कि भारत की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना यूपीआई के जरिए लेनदेन मूल्य के आधार पर चार हजार अरब डॉलर को पार कर चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया कि आधार सत्यापन 55000 अरब के पार चला गया है। अंततः भारत अपने स्वयं के खुले बैंकिंग ढांचे को संचालित करने के लिए तैयार है। इन सुचकांकों से पता चलता है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों को पूरी तरह से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी है।

उपभोक्ताओं को

📕 माना जा रहा है कि 5जी

तकनीक के जरिए मोबाइल

इंटरनेट की स्पीड 4जी से

10 गुना ज्यादा हो जाएगी।

🔳 स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक

का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसमें

टेलीमेडिसिन के साथ-साथ

चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट का

इलाकों में तकनीक के जरिए वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग से गंभीर

बीमारियों के इलाज की भी

व्यवस्था बनाई जा सकेगी।

🔳 होटल-हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में

इस्तेमाल करना बढ़ेगा। दुरस्थ ग्रामीण और पहाडी

होंगे ये फायदे

सकता है अनिवार्य जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से जीएसटी का टैक्स आधार बढ़ेगा और बेहतर अनुपालन के लिए

कहा कि यह नियम एक अक्टूबर, सरकार को अधिक डाटा मिलेग। 2022 से प्रभावी हो जाएगा। इस वक्त जिस तरह से सीमा को कम किया जा रहा है, जल्द ही यह सभी वर्गो जीएसटी परिषद ने ई-इनवॉयस को के जीएसटी करदाताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अनिवार्य हो सकता है। फैसला किया था। एक अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के

जेनेरेट करना अनिवार्य किया गया था।

कारोबारी लेन-देन के लिए ई-इनवॉयस

ਤਜ਼ਟ ਦੇਲਕੇ ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/द्वितीय/मुरादाबाद द्वारा **ई** टेन्डर संख्या 109-डी आर एम-एम बी-22-23 जिसके बन्द होने की तिथि 25.08.2022 है उपरोक्त टेन्डर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन **16:00 बजे** तक किये जायेंगे। कार्य का नामः सहायक मण्डल अभियन्ता/प्रथम/हरदोई के अधीन सीनिय सेक्शन इंजिनियर/कार्य/हरदोई के अधीन हरदोई स्टेशन व कॉलोनी में जलापूर्ति की नरम्मत, स्टाफ क्वाटरों व कार्यालयों में पी वी सी टैंक का प्रावधान साथ में हरदोई स्टेश में रूफ लीकएज तथा अन्य विविध कार्य। **टेन्डर क्लोजिंग दिनांक/समयः 25.08.2022**, 16:00 बजे, **अनुमानित लागतः** रु. 79,99,581.23, **धरोहर राशिः** रु. 1,60,000.00, टेन्डर फार्म की लागत: रू. शून्य, बिडिंग शुरू दिनांक: 11.08.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि: 08 माह। मैन्यूल आफर स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

ठेकेदारों को अनुमति दी जाती है कि इस निविदा का निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि का भुगतान वह केवल through online payment mode जो कि IREPS पर उपलब्ध है, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से करें। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रशीद, एफ. डी. आर. से भूगतान की अनूमति नहीं है सं.: 109-डी आर एम-एम बी-22-23 दिनांक: 01.08.2022 1962/2022

ਤਜ਼ਦ ਦੇਲवੇ ई—निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियंता / समन्वय दारा निम्नलिखित ई—टेन्डर संख्या जिनके बंद होने की तिथि व समय प्रत्येक सामने अंकित है। जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे । निम्नलिखित टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते है । निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन भगतान करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें ।

टेन्डर संख्या दिनांक	112-DRM-MB-22-23 Dt : 30.07.2022			
कार्य का नाम	सहायक म. अभियंता / हापुड के अधीन गढ़मुक्तेंश्वर से गाजियाबाद (गाजियाबाद छोडकर) के मध्य समस्त सेवा भवनों एवं आवासीय भवनो की मरम्मत तथा लकडी, स्टील तथा रोड के कार्य।			
टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/समय	23.08.2022 (16:00)			
अनुमानित लागत	1,08,29,712.70			
धरोहर राशि	2,04,200.00			
टेन्डर फार्म की लागत	Nil			
कार्य पूर्ण करने की अवधि	Up to 30.06.2023			
बिडिंग आरंभ तिथि	09.08.2022			
Tender No. 75-W/2/3/WA/DEN/IV/T.Notice Dated : 01.08.2022 1955/202				
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ				

नामांकन नियम सेबी ने दो माह टाले

नई दिल्ली, एजेंसी। निवेशकों को म्यूचुअल फंड इकाइयों की सदस्यता लेने के लिए नामांकन का विवरण प्रस्तुत करने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए अनिवार्य करने वाले नियम अब पहली अक्तूबर से लागू होंगे। पहले इन्हें एक अगस्त से लागू होना था। सेबी ने कहा कि पहली अक्टूबर से म्यूचुअल फंड इकाइयों की सदस्यता लेने वाले निवेशकों के पास नामांकन प्रदान करने या नामांकन क विकॅल्प चुनने का विकल्प होगा। एएमसी को यूनिट धारक की पसंद के अनुसार भौतिक या ऑनलाइन मोड में नॉमांकन से बाहर निकलने के लिए नामॉंकन फॉर्म या घोषणा पत्र देनें का विकल्प देना होगा।



पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, बी—148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली—110001 दूरभाषः 011-23311263-64 फैक्सः 011-23311259 वेबसाईटः www.irctc.com ई-मेलः investors@irctc.com

23वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग जानकारी, बुक क्लोजर और लाभांश की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

- त्तदद्वारा सूचित किया जाता है कि: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 2 / 2022 दिनांक 5 मई, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं. 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 19 / 2021 एवं 21 / 2021 क्रमश: दिनांक 8 अफ्रैल, 2020, 13 अग्रेल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021 एवं 14 दिसम्बर, 2021 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में 23वी एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड ट्रिप्स कॉरपोरेशन लि. ("कंपनी") के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") ग्रुकवार, 26 अगस्त, 2022 को दोप. 12.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2 अगस्त, 2022 को कम्पनी के उन सभी सदस्यों को ड्रलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडी उपरोक्त विर्णित अनुसार एमसीए / सेबी परिपत्रों के अनुपालन में आरटीए / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। इं–मेल काध्यम से सूचना भेजने का कार्य 2 अगस्त, 2022 को क्रुप्य निया गया है। 3. अपना ई–नेल पता एजीकृत कराने के लिए सदस्यों हेतु विरात दिशानिर्देश, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 23वीं एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया सहित ई–वोटिंग की प्रक्रिया एजीएन के सूचना में दी गई है। एजीएम की सूचना में संवर्भित वस्तावेज एजीएम की तिथि तक इस सूचना के सर्कुलेशन की तिथि से सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिकली निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। सदस्यों द्वारा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट मांफ्रु://irctc.com/assets/images/Annual%20Repor%20201-22.pdf से प्राप्त की जा सोठती है। ऐसे दस्तावेजों कानिसिका करने के देशन की तिथि से परस्य इंग्र बिन के इल कई लोक्ट्रॉनिक ही सेवाए ले सिंग ने आगति होगा। 23. विर्तान के प्रेतन वीटिंग की प्रक्रिय करा हकिवद्यों शियले करते हैं। कम्पनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। सतस्यों का वोटिंग अधिकार शुक्रवा, 23. वर्गरन में वोटिंग की यदिया करम के के लिए एजेंसी के रूप में एनकरे हैं। 23. वर्गरन में वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्प्रों के आनुपतिक होगा । 23.

- सदस्यों को सुचित किया जाता है कि: क) रिमोट ई–वोटिंग अवधि मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को साय 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त हो
- ख) **बृहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी
- खु बुहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को साय 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;
 कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को सतस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को प्रात: 900 बजे (आईएसटी) से बुहस्पतिवार, 25 अगस्त, 2022 को साय 5.00 बजे (आईएसटी) तक रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही 23वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा का लाम उठाने के हकदार होंगे;
 कोई यावित जो बैठक की सूचना मेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को शेयर धारण करता है वह <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है;
 जु उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
- च) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना केवाईसी विवरण पंजीकृत / अपडेट कराने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें
- भौतिक शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम्पनी के आरटीए अर्थात **अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटे**ड भौतिक भातिक शयर धारण करने वाल सदस्या स अनुराध हो के व कम्पना के आरटीए अधारत अलोकत एसाइनमें देस लिमिट ८ अलंकित हाउस, 4ई /2, डांडेवालान एक्सटेंशन, नजदीक डांडेवालान मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली–110055 के पास सहायक वस्तावेजों के साथ फार्म आईएसआर–1 में विधिवत हत्तक्षरित अनुरोध पत्र भेजकर या ई–मेल kycupdate@alankit.com पर स्कैन कॉपी भेजकर अपना ई–मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट कराएं और निम्नलिखित विवरणॉ/ दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं: धारिता के मामले में

 - निमालाखा पिपरभा/ परपायजा को उपलब्ध यराइ: 1. ई–मेल पता पंजीकरण के लिए: क) फोलियो नं., ख) शैयरघारक का नाम, ग) ई–मेल आईडी, घ) मोबाइल नं., छ) पैन कार्ड (रव–सत्यापित) की प्रति, च) आघार कार्ड (रव–सत्यापित) की प्रति, छ) शैयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की प्रति। 2. बैंक खाता दिवरण अपडेट करने के लिए: क) जहां लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक का नाम एवं शाखा, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड नम्बर, ड) IFSC कोड, और च) प्रथम शेयरघारक के नाम के साथ कैंसल चेक ⁄ पासबुक की प्रति।
 - कर्सल चक⁄ पांसबुक का प्रात । 3. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि KYC अपडेशन के लिए दस्तावेज स्वप्रमाणित एवं दिनांकित हार्ड कॉपी के माध्यम से आरटीए के उपरोत्तत पते पर या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, बशतें कि ये आरटीए के साथ पंजीकृत शेयरधारक की ई—मेल आईडी के माध्यम से भेजे जायें और सभी दस्तावेज शेयरधारकों और संयुक्त धारकों के मामले में पहले संयुक्त धारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली / डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।
- जुज्या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से सम्पर्क करें और आपके डीपी द्वारा दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना इ—मेल पता और आपके डिमेट खाते में बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं। दिमेट धारिता के मामले में
- . 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 23वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रिकार्ड रखने के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और इक्विटी शेयरों हेतु शेयर ट्रांसफर बुक **शनिवार, 20 अगस्त, 2022 से शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 तक (दोनों दिवस** शामिल) बंद रहेंगें।
- शामिल) बद रहेगे ।
 कंपनी के निदेशक मंडल ने रु. 1.50 प्रति इविवटी शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश अनुमोदित किया जाता है तो इसे 30 दिन के भीतर योग्य सदस्यों को भुगतान किया जाएगा । सदस्यगण कृपया नोट के कि वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 में यह अधिदेश किया गया है कि कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित किया जात है तो इसे 30 दिन के भीतर योग्य सदस्यों को भुगतान किया जाएगा । सदस्यगण कृपया नोट के कि वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 में यह अधिदेश किया गया है कि कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित किया जाने वाला लाभांश सदस्यों को ओर करयोग्य होगा । इसरिए कंपनी को लाभांश सदस्यों को ओर करयोग्य होगा । इसरिए कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय सोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होगा । लागू टीडीएस दर के निर्धारण के तिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए सदस्यों के जुरोध है कि वे हमारे आरटीए के पास शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को या उससे पूर्व संगत दस्तावेज जाम कर दे । विरत्त विवरणों के लिए कृप्या एजीएम की सूचना का अवलोकन करे ।
 कि कपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है, के लिए सदस्यों को योग्यता के निर्धारण हेतु शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 ''रिकार्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित की है ।
 रिकार्य हेता यि उम में ई–वोटिंग के लिए अप्र एजीएम की सूचना का अवलोकन करे ।
 किपनी ने 14ा मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है, के लिए सदस्यों की योग्यता के निर्धारत की है ।
 रिमार्ट ई–वोटिंग एवं बैठक में ई–वोटिंग के लिए सुत्री वालिका शर्मा, पेशेवर कम्पनी सविय को ''संवीक्षक ' के रूप में नियुक्त किया गया है ।
 रिमार्ट ई–वोटिंग एवं बैठक में ई–वोटिंग के लिए सुत्री वालिका शर्मा, प्रेशवर कम्पनी सरीय को ''संवीक्षक ' के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- 10. एसाट इन्याटेग पूर्व बठक म इन्याटेग के लिए अपूर्व बालको शर्मा, प्रशेवर कम्पनी सांविय की सवाबक के रूप में नियुक्त कियो गया हो 11. किसी भी पूछताछ के लिए आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के 'डाउनलोड सैक्शन' पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जो एजीएम से पूर्व या दौरान किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं एवं सदस्यों के लिए उनकर पूछे अवलोकन कर सकते हैं। आप एनएसडीएल से टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से पदनामित ईन्मेल आईडी <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर सम्पर्क कर सकते हैं जो
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी आपकी शिकायत का समाधान करेंगी। आईआरसीटीसी लि. के निदेशक मंडल के आदेशानुसार **हस्ता. /— (सुमन कालरा)** कम्पनी सबिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 02 अगस्त, 2022

(₹ in Lokho)

आरबीआई के वित्तीय समावेश सूचकांक में वृद्धि

मुंबई, एजेंसी। आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेश . संचकांक मार्च. 2022 में बढकर 56.4 पर पहंच गया जो सभी मानदंडों में वृद्धि को दर्शाता है। यह देश में विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति को बताता है। सूचकांक वित्तीय समावेश के विभिन्न पहलुओं पर शून्य और 100 के बीच जानकारी देता है। इसमें शून्य पूरी तरह से वित्तीय समावेश की कमी को बताता है, वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेश को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा, वित्तीय

देश में इंटरनेट कितना सस्ता

2012 के 2 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में पायदान पर है। इस मामले में 9,400 करोड़, 2013 में 61,200 इजरायल सबसे सस्ता देश है। 3जी में 1.09 लाख करोड़, 2016 में 65,789.12 करोड़ , 2021 में फिजी भारत से आगे हैं। भारत में एक जीबी 13 .5 रूपये की है। वहीं 77,814 करोड और 2022में 1.5 इजरायल में कीमत तीन रुपये है।

सस्ते डेटा में भारत दुनियाभर में 5वें इजरायल के बाद सस्ता इंटरनेट देने के मामले में इटली, सैन मारिनो और

रोबोट का इस्तेमाल करना संभव होगा। 🔳 वर्चअल रियलिटी के जरिए आंभासी पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। कार्यालय सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज विज्ञाप्ति परिषदीय अधिवक्ताओं के नामिका (Panel) के लिये उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद

प्रयागराज के पत्रांक बे0शि0प0/8753/2017-18 दिनांक 21.07.2017 द्वारा जारी विज्ञाप्ति को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा अर्ह अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक २४.०८.२०२२ समय 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त कराया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप व शर्ते वेबसाइट upbasic.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। (प्रताप सिंह बघेल)

सचिव 30प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागर

कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, मरादाबाद पत्रांक- 661-62 दिनांक- 28.07.2022

181/ **IUBILANT** Pharmova

Jubilant Pharmova Limited

Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624 Website: www.jubilantpharmova.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267437

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2022

Consolidated Unaudited Financial Results (₹ in Lakhs` **Quarter Ended** Year Ended 30 June 31 March 30 June 31 March Particulars (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 2022 2022 2021 2022 145172 152753 163465 613016 Total income from operations 6906 10567 24651 63045 Net profit before tax and exceptional items

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

समावेश सूचकांक मार्च, 2022 में 56.4 रहा। एक साल पहले मार्च, 2021 में यह 53.9 था। सभी उप-सुचकांकों में वृद्धि दर्ज की गई है।

जुलाई में देश के निर्यात में मामूली गिरावट आई

नई दिल्ली। देश का निर्यात जुलाई में मामूली 0.76 प्रतिशत घटकर 35.24 अरब डॉलर रहा। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा तीन गुना बढ़कर 31.02 अरब डॉलर हो गया। जुलाई 2021 में व्यापार घाटा 10.63 अरब डॉलर था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में आयात बढ़कर 66.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने में 46.15 अरब डॉलर था।

चिपकी कमी से उत्पादन का नुकसानः मारुति

नई दिल्ली। मारुति को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चिप की कमी के कारण 51,000 इकाइयों के उत्पादन का नुकसान हुआ है। कंपनी ने कहा सेमीकंडक्टर की कमी उत्पादन योजना बनाने में एक चनौती बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जो की उँपलब्धता को लेकर अस्थिरता उत्पादन की योजना बनाने में हमारे लिए एक चुनौती है।

जोमैटो के शेयर में 20 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली। जोमैटो के शेयर मंगलवार को करीब 20 प्रतिशत तक चढ़ गए। जुन तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा आधा होकर 186 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 360.7 करोड रुपये का घाटा हुआ था। बीएसई में शेयर 19.96 प्रतिशत के लाभ के साथ 55.60 रुपये पर पहुंच गया।

स्पाइसजेट ने बकाया चुकाया

नई दिल्ली। स्पाइसजेट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करार कर हवाईअड्डा परिचालक का सारा मूल बकाया चुका दिया है। उसे एएआई द्वारा संचालित हवाईअड्डों पर कैश एंड कैरी मॉडल के तहत संचालन नहीं करना होगा। दैनिक उड़ानों के परिचालन के लिए अग्रिम भुगतान व्यवस्था का अनुसरण करेगी।

कार्यालय हेतु भवन की आवश्यकता

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि सरकारी कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, मरादाबाद मण्डल मरादाबाद हेत एक भवन जिसमें पांच कमरे, जीप हेतु गैराज, बिजली, पानी एवं शौचालय सुविधा सहित कारपेट एरिया 2000 वर्ग फीट तक किराये पर लेना है। भवन स्वामी निम्न सूचनाओं के साथ दिनांक 20.08.2022 साय 5 बजे तक, निम्नलिखित विवरणों के साथ आधोस्ताक्षरी के कार्यालय- कार्यालय उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद, लक्ष्मी निवास, निकट मण्डल आयुक्त कार्यालय, सिविल लाइन, मुरादाबाद, में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने का कष्ट करें।

फोन नं0-0591- 415492, 8707399152

1- भवन का पता, 2- मासिक किराया , 3- प्रति वर्ग फीट दर एवं कुल कारपेट एरिया, 4- भवन कर एवं जलकर आदि के भुगतान की रसीद की छायाप्रति, 5- भवन के मानचित्र सहित, 6 अन्य शर्तों सहित।

उप मख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

सहकारी समितियाँ एवं पचायतें,

मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।

RAJASTHAN POLICE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD, JAIPUR (Government of Rajasthan Undertaking) CIN NO. U45201Ru2013SGC043014 Regd. Office:756, Police Head Quarter, Lal Kothi, Jaipur(Raj.) Phone: 0141-2740784, Fax: 0141-2744294, e-mail: rpidcl@rajasthan. क्रमांकः-- RPHCCL/469/NIT/2022-23/D-2717 दिनांकः 29.07.2022

<u>ई-निविदा सूचना सं0 09/2022-23</u>

निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य / केन्द्र सरकार के अभियांत्रिकी विभागों / उपक्रमों मे समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत योग्य एवं अनुभवी संवेदकों से नियमानुसार पाँच वर्षो / एक वर्ष की डीएलपी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में 25 कार्यों के लिए (क्रम संख्या 01 से 12 तक की निविद Two Bid System) के तहत आमंत्रित की जाती है।

निविदा की कुल लागत	रूपये 2797.95 लाख
ऑन लाईन निविदा फॉर्म मिलने की तारीख	08 अगस्त 2022 प्रातः 9.30 बजे से
	29 अगस्त 2022 सायं 4.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की तारीख	29 अगस्त 2022 सायं 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	30 अगस्त सायं 4.00 बजे
निविदा सम्बन्धित जानकारी राजस्थान पलिस की	वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in/

<u>www.sppp.raj.nic.in</u> एवं <u>http://eproc.rajasthan.gov.in</u> पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुव संवेदको को निविदा संबंधित जानकारी प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की ज सकती है । भविष्य में निविदाओं में संशोधन होने पर उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रेषित किया जावेगा ।

1-UBN: RID2223WSOB00094	2- UBN: RID2223 WSOB00095
3- UBN: RID2223 WSOB00096	4- UBN: RID2223 WSOB00097
5- UBN: RID2223 WSOB00098	6- UBN: RID2223 WSOB00099
7-UBN: RID2223 WSOB00100	8- UBN: RID2223 WSOB00101
9- UBN: RID2223 WSOB00102	10- UBN: RID2223 WSOB00103
11-UBN: RID2223 WSOB00104	12-UBN: RID2223 WSOB00105
13- UBN: RID2223 WSOB00106	14-UBN: RID2223 WSOB00107
15- UBN: RID2223 WSOB00108	16- UBN: RID2223 WSOB00109
17-UBN: RID2223 WSOB00110	18- UBN: RID2223 WSOB00111
19- UBN: RID2223 WSOB00112	20- UBN: RID2223 WSOB00113
21-UBN: RID2223 WSOB00114	22-UBN: RID2223 WSOB00115
23-UBN: RID2223 WSOB00116	24-UBN: RID2223 WSOB00117
25-UBN: RID2223 WSOB00118	
राज.संवाद / सी / 22 / 5870	महाप्रबन्धक

Net profit before tax (after exceptional items)	6906	10567	24651	63045
Net profit after tax and exceptional items	4675	5909	16049	41302
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	16260	13166	31561	65698
Equity share capital	1592	1592	1592	1592
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				530264
Earnings per share of ₹ 1 each-Not annualized				
Basic (₹)	2.96	3.74	10.09	26.00
Diluted (₹)	2.96	3.74	10.09	26.00

Standalone Unaudited Financial Results

				(₹ in Lakhs)
		Year Ended		
Particulars	30 June	31 March*	30 June*	31 March*
Particulars	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
	2022	2022	2021	2022
Total income from operations	20457	24069	17864	72573
Net (loss)/profit before tax and exceptional items	(649)	1533	(99)	8472
Net (loss)/profit before tax (after exceptional items)	(649)	1533	(99)	8472
Net (loss)/profit after tax and exceptional items	(518)	1046	(76)	8049
Total comprehensive (loss)/income after tax (comprising (loss)/profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	(499)	1118	(82)	8107
Equity share capital	1593	1593	1593	1593
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				242314
Earnings per share of ₹ 1 each-Not annualized				
Basic (₹)	(0.33)	0.66	(0.05)	5.05
Diluted (₹)	(0.33)	0.66	(0.05)	5.05

*refer note 1

Notes:

1. During the quarter ended 30 June 2022, the Scheme of Arrangement ("the Scheme") for demerger of the Active Pharmaceuticals Ingredients ("API") business undertaking of Jubilant Generics Limited ("JGL"), an indirect wholly owned subsidiary of the Company, and vesting of the same with the Company, on a going concern basis, with Appointed Date of 1 April 2022 was approved by Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ("NCLT") vide its order dated 13 June 2022. The said NCLT order was filed with the Registrar of Companies by the Company and JGL on 1 July 2022 thereby making the Scheme effective from that date. As a result, all assets and liabilities of the API business undertaking vested into the Company were recorded at the respective book values appearing in the books of account of JGL as at 1 April 2022 and the difference amounting to ₹ 115725 lakhs (total assets of ₹ 139478 less total liabilities of ₹ 23753) after considering the cancellation of inter-company balances has been accounted within "Other Equity".

Further, the financial results for the quarters ended 31 March 2022 and 30 June 2021 and for the year ended 31 March 2022 have been restated to include the financial information in respect of prior periods as if the demerger of API business undertaking of JGL and vesting of the same with the Company had occurred from the beginning of the preceding period in the financial results, irrespective of the Appointed Date of the demerger, in accordance with the requirements of Ind AS 103 "Business Combinations".

- The consolidated and the standalone unaudited financial results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 02 August 2022
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2022 is available under Investors section of our website at www.jubilantpharmova.com and Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com

For Jubilant Pharmova Limited Hari S. Bhartia Co-Chairman & Managing Director

Place : Noida Date : 02 August 2022